

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

A. CORRIGENDUM

Modification in Tender Documents already hosted by SIDBI in respect of seeking invitation of offers for acquiring office premises on Leave and License basis at Varanasi, UP

The following clauses are modified / inserted in the original tender notice hosted on SIDBI portal/E-Procurement Portal.

MODIFICATION NO-1

Page No. 1: The content of the paragraph is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page No. 1	भरे हुए आवेदनपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 02/05/2019 सायं 3.00 बजे है। Last Date and time for receipt of filled in application : 02/05/2019, 15:00 hrs	भरे हुए आवेदनपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 06/05/2019 सायं 3.00 बजे है। Last Date and time for receipt of filled in application : 06/05/2019, 15:00 hrs

MODIFICATION NO-2

Page No. 2 : The content of the 1st paragraph is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 2 (1 st para)	सिडबी वाराणसी में लीव एंड लाइसेंस/ लीज आधार पर कार्यालय परिसर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परिसर भूतल में स्थित होना चाहिए तथा सिगरा, रथयात्रा, नदेसर, कैंट रोड, महमूरगंज, मलदहिया आदि में स्थित हो और उसका कार्पेट क्षेत्रफल लगभग 110 वर्ग मीटर से 120 वर्ग मीटर होना चाहिए। परिसर तैयार हालत में तुरन्त उपलब्ध हो और वरीयतः फर्निशड	सिडबी वाराणसी में लीव एंड लाइसेंस/ लीज आधार पर कार्यालय परिसर के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। परिसर भूतल में स्थित होना चाहिए तथा सिगरा, रथयात्रा, नदेसर, कैंट रोड, महमूरगंज, मलदहिया आदि में स्थित हो और उसका कार्पेट क्षेत्रफल लगभग लगभग 950 वर्ग

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

	<p>हो, अथवा उसे बैंक की आवश्यकतानुसार/विनिर्देशानुसार मालिक(कों) द्वारा अपने खर्च पर सुसज्जित / पुनः सज्जित कराया जाए।</p>	<p>फुट से 1300 वर्ग फुट होना चाहिए। परिसर तैयार हालत में तुरन्त उपलब्ध हो और वरीयतः फर्निशड हो, अथवा उसे बैंक की आवश्यकतानुसार/विनिर्देशानुसार मालिक(कों) द्वारा अपने खर्च पर सुसज्जित / पुनः सज्जित कराया जाए। फर्निशिंग में बैंकों की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक संरचित लैन केबलिंग शामिल है। इसके अलावा, मालिक (मालिकों (को वायरलेस) रेडियो फ्रीक्वेंसी (एंटीना की स्थापना के लिए छत के ऊपर जगह और यूपीएस के लिए समर्पित अर्थिंग भी प्रदान करनी होगी।</p>
--	--	---

MODIFICATION NO - 3

Page No. 2 : The content of the 2nd paragraph is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 2 (2 nd para)	<p>SIDBI invites offers for office premises admeasuring about 110 sq mtr to 120 sq. mtr. carpet area in Varanasi on leave and licence / lease basis on Ground Floor in buildings located in Sagra, Rathyatra, Maldahiya, Bhelupur, Mahmoorganj, Cantt Road, Nadesar. The premises should be readily available and preferably furnished or it shall be furnished / refurnished by the owner(s) at their own cost as per the Bank's requirement / specifications.</p>	<p>SIDBI invites offers for office premises admeasuring about 950 sq. ft. to 1300 sq. ft. carpet area in Varanasi on leave and licence / lease basis on Ground Floor in buildings located in Sagra, Rathyatra, Maldahiya, Bhelupur, Mahmoorganj, Cantt Road, Nadesar. The premises should be readily available and preferably furnished or it shall be furnished / refurnished by the owner(s) at their own cost as per the Bank's requirement / specifications. Furnishing includes internal structured LAN cabling as per the banks requirement. Further, the owner should also provide space on the roof top for installation of Wireless (Radio Frequency)</p>

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

	Antenna and dedicated earthing for UPS.
--	---

MODIFICATION NO - 4

Page No. 2 : The content of the last paragraph is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page No. 2 (last para)	<p>सुस्पष्ट एवं विपणन योग्य स्वत्व वाली ऐसी संपत्तियाँ, जो स्थानीय नियमों के अनुसार बनाई गई हो और व्यापारिक उपयोग के लिए प्रयोग की जा सके, ऐसी संपत्ति के लिए प्रस्ताव भेजने के इच्छुक मालिक दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में अपने प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तृतीय तल, अनंत काम्प्लेक्स, सिगरा, वाराणसी - 221010, फोन नं. 0542-2223465, 2223948. Email : khandel@sidbi.in एवं varanasi@sidbi.in पर भेजें। एक लिफाफे में तकनीकी बोली और दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली भेजी जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख 02/05/2019 है। किसी भी प्रकार की दलाली शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>	<p>सुस्पष्ट एवं विपणन योग्य स्वत्व वाली ऐसी संपत्तियाँ, जो स्थानीय नियमों के अनुसार बनाई गई हो और व्यापारिक उपयोग के लिए प्रयोग की जा सके, ऐसी संपत्ति के लिए प्रस्ताव भेजने के इच्छुक मालिक दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफों में अपने प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक तृतीय तल, अनंत काम्प्लेक्स, सिगरा, वाराणसी - 221010, फोन नं. 0542-2223465, 2223948. Email : khandel@sidbi.in एवं varanasi@sidbi.in पर भेजें। एक लिफाफे में तकनीकी बोली और दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली भेजी जाएं। प्रस्ताव भेजने की अंतिम तारीख 06/05/2019 है। किसी भी प्रकार की दलाली शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।</p>

MODIFICATION NO - 5

Page No. 3 : The content of the 1st paragraph is modified and may be read as under:-

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page No. 3 (1 st para)	Interested parties having clear and marketable title to the properties built as per local byelaws and having permission for <u>commercial use of the same</u> , may submit their offers in two separate sealed covers, one for technical bid and another for financial bid to the In-charge, Anant Complex, 3rd Floor, Sigra, Varanasi - 221010 Tel. No. 0542-2223465, 2223948, e-mail: khandel@sidbi.in and varanasi@sidbi.in . Last date for submission of offers is 02/05/2019, upto 15:00 hours. No brokerage will be paid.	Interested parties having clear and marketable title to the properties built as per local byelaws and having permission for <u>commercial use of the same</u> , may submit their offers in two separate sealed covers, one for technical bid and another for financial bid to the In-charge, Anant Complex, 3rd Floor, Sigra, Varanasi - 221010 Tel. No. 0542-2223465, 2223948, e-mail: khandel@sidbi.in and varanasi@sidbi.in . Last date for submission of offers is 06/05/2019, upto 15:00 hours. No brokerage will be paid.

MODIFICATION NO - 6

Page No. 4 : The content of the Sr. No. 2 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 4 (Sr. No. 2)	प्रस्तावित कारपेट क्षेत्र / Carpet area offered - between 110 sqmt to 120 sqmt (Approx 1184 sq. ft. to 1291 sqft). The carpet area offered should be within the range given by SIDBI else the offers will be rejected. The landlord should enclose layout plan duly certified by the Architect/ Surveyor	प्रस्तावित कारपेट क्षेत्र / Carpet area offered - between approx. 950 sq. ft. to 1300 sq. ft. The carpet area offered should be within the range given by SIDBI else the offers will be rejected. The landlord should enclose layout plan duly certified by the Architect/ Surveyor

MODIFICATION NO - 7

Page No. 4 : The content of the sr. no. 5 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
----------------	--------------------------------------	----------------

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

Page no. 4 (Sr. No. 5)	Present Age (should not be more than 20 years) Condition and maintenance/upkeep of the Building – The Construction should be of good quality and the present condition of the building should be good.	Present Age (should not be more than 30 years) Condition and maintenance/upkeep of the Building – The Construction should be of good quality and the present condition of the building should be good.

MODIFICATION NO - 8

Page No. 8 : The content of the sr. no. 5 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 8 (Sr. No. 5)	प्रस्तावित परिसर के लिए दी गई दरें प्रति कारपेट वर्गमी. आधार पर होगी और दरों में सभी लागू कर (नगरपालिका कर), व्यय, रखरखाव, आदि शामिल होंगे। लागू सेवाकर का भुगतान / प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी। दी गई दरें प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए क्योंकि इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों का भी साथ-साथ परीक्षण किया जाएगा।	प्रस्तावित परिसर के लिए दी गई दरें प्रति कारपेट वर्ग फुट आधार पर होगी और दरों में सभी लागू कर (नगरपालिका कर), व्यय, रखरखाव, आदि शामिल होंगे। लागू सेवाकर का भुगतान / प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी। दी गई दरें प्रतिस्पर्धात्मक होनी चाहिए क्योंकि इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों का भी साथ-साथ परीक्षण किया जाएगा।

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

MODIFICATION NO - 9

Page No. 16 : The content of the sr. no. K (related to Parking Space) is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page No. 16 (Sr. No. K)	Adequate reserved parking space (minimum 3 nos carparking and 5 two wheeler parking shall be provided by me/us exclusively reserved for SIDBI.	Adequate reserved parking space (minimum 4 two wheeler parking shall be provided by me/us exclusively reserved for SIDBI preferably at the proposed premises or at a distance of 50-100 meters from the proposed premises at owners cost and security.

MODIFICATION NO - 10

Page No. 18 (related to Format for Technical Bid (TB) : The content of the sr. no. 2 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 18 (Sr. No. 2)	Present Age of premises and type of construction (mention whether 1st class RCC or tiled roof structure etc.) (Certificate from Chartered Engineer regarding structural stability / safety of the building to be produced, if demanded by SIDBI). Age of the premises should not be more than 20 years. Note: The age of the Building should not be more than 20 year old from the date of occupation/completion certificate.	Present Age of premises and type of construction (mention whether 1st class RCC or tiled roof structure etc.) (Certificate from Chartered Engineer regarding structural stability / safety of the building to be produced, if demanded by SIDBI). Age of the premises should not be more than 30 years. Note: The age of the Building should not be more than 30 years old from the date of occupation/completion certificate.

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

MODIFICATION NO - 11

Page No. 19/20 (related to parking space): The content of the sr. no. 5 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 19/20 (Sr. No. 5)	<p>क्या आरक्षित पार्किंग उपलब्ध है (छतदार या खुली हुई) यदि है, तो कृपया कितनी गाड़ियाँ/दुपहिया वाहनों की पार्किंग है। विवरण दें। न्यूनतम 04 कार पार्किंग एवं 04 दुपहिया वाहन हेतु आरक्षित पार्किंग होनी चाहिए)</p> <p>Whether reserved parking (covered / open) available? If so, give the details regarding the no. of car/ Two wheelers parking.</p> <p>(Minimum 4 car parking and 4 two wheeler parking should be reserved)</p> <p>Note: If required, the agency may built in the parking charges in the monthly rent and quote accordingly</p>	<p>क्या आरक्षित पार्किंग उपलब्ध है (छतदार या खुली हुई) यदि है, तो कृपया कितनी गाड़ियाँ/ दुपहिया वाहनों की पार्किंग है। विवरण दें।</p> <p>न्यूनतम 04 दुपहिया वाहन हेतु आरक्षित पार्किंग होनी चाहिए यथा संभव प्रस्तावित परिसर में या उसके 50-100 मीटर के दायरे में)</p> <p>Whether reserved parking (covered / open) available? If so, give the details regarding the no. of car/ Two wheelers parking.</p> <p>(Minimum 4 two wheeler parking should be reserved preferably at the proposed premises or at a distance of 50-100 meters from the proposed premises at owners cost and security)</p> <p>Note: If required, the agency may built in the parking charges in the monthly rent and quote accordingly</p>
	<p>वित्तीय बोली का प्ररूप (एफबी) लिफ़ाफ़ा सं. 2 में प्रस्तुत किया जाए)</p> <p>The Format for Financial Bid (FB)</p> <p>(To be submitted in Cover - 2)</p>	

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

MODIFICATION NO - 12

Page No. 23/24 : The content of the sr. no. 1 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 23/24 (Sr. No. 23)	छत पर अधिकतम एक मीटर ऊँचे और 250 किलोभार के बिना तार वाला ऐनटीना संस्थापित करने के लिए जगह की उपलब्धता Availability of space on roof top for installatio of wireless antenna of maximum height of 9 meters and weight around 250 kg.	छत पर अधिकतम एक मीटर ऊँचे और 250 किलोभार के बिना तार वाला (Radio Frequency) ऐनटीना संस्थापित करने के लिए जगह की उपलब्धता Availability of space on roof top for installation of wireless (Radio Frequency) antenna of maximum height of 9 meters and weight around 250 kg. Note: civil work will be carried out on the roof top by chipping the floor by ½ or 1 inch for erection of antenna. The antenna would be a tripod structure with space requirement of approximately 9X9M.

MODIFICATION NO - 13

Page No. 25 : The content of the sr. no. 1 is modified and may be read as under:-

Sr. No.	As per tender Document hosted	Revised
Page no. 25 (Sr. No. 1)	प्रति कारपेट वर्ग मी. क्षेत्र का मासिक किराया (कारपेट क्षेत्र का अर्थ है ढका हुआ फर्श क्षेत्र, जिसमें दीवारों, आधार दीवारों की परीधि की मोटाई, खुला बरामदा / बालकनी /खिड़की की सिलों के नीचे भंडारण के लिए स्थान, खुले गलियारे/ आने जाने का रास्ता, लॉबियाँ, सीढ़ियाँ, मम्टीयाँ, लिफ्टों के लिए कक्ष और नीचे जाने	प्रति कारपेट वर्ग फुट क्षेत्र का मासिक किराया (कारपेट क्षेत्र का अर्थ है ढका हुआ फर्श क्षेत्र, जिसमें दीवारों, आधार दीवारों की परीधि की मोटाई, खुला बरामदा / बालकनी /खिड़की की सिलों के नीचे भंडारण के लिए स्थान, खुले गलियारे/ आने जाने का रास्ता, लॉबियाँ, सीढ़ियाँ, मम्टीयाँ,

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

	<p>का रास्ता, सामान्य शौचालय और सामान्य क्षेत्र आदि शामिल नहीं है) कमरा/ हाल के अंदर की दीवारों को फर्शक्षेत्र माना जाएगा। परिसर के लिए अलग से बनवाए गए शौचालयों को भी फर्श क्षेत्र में शामिल किया जाएगा)</p>	<p>लिफ्टों के लिए कक्ष और नीचे जाने का रास्ता, सामान्य शौचालय और सामान्य क्षेत्र आदि शामिल नहीं है) कमरा/ हाल के अंदर की दीवारों को फर्शक्षेत्र माना जाएगा। परिसर के लिए अलग से बनवाए गए शौचालयों को भी फर्श क्षेत्र में शामिल किया जाएगा)</p>
--	---	--

MODIFICATION NO- 14

The following condition no. 17 at Page N0. 32 is modified in Broad specifications of Interior works

- Office Premises

Sr No	As per tender Document hosted	Revised																											
<p>Page No. 32 (sr. No. 17)</p>	<p>LAN Cabling -From UPS / Switch room to all the workstations / seats LAN cabling with CAT - 6 approved make cable to be provided in PVC conduit alongwith suitable modular type outlet boxes and RJ-45 connectors</p>	<p>LAN Cabling – The LAN cabling to be provided should be structured with the following components installed:</p> <p><u>a). Network Rack (Metal)</u> <u>(i) Specifications / Requirements of Rack and Patch cords</u></p> <table border="1" data-bbox="909 1218 1421 1866"> <thead> <tr> <th>S.N.</th> <th>Description</th> <th>Qty.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Type of Rack (Steel)</td> <td>Wall Mount</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Size of Rack</td> <td>12U / 13U</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Front Glass Door</td> <td>One</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Rear perforated Door</td> <td>One</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>No of Fan Trays with four fans</td> <td>One</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Power Strip with 6 / 8 three pin Indian Sockets</td> <td>One</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Fixed Shelves / trays</td> <td>One</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CAT 6 Patch / Jack Panel of 24 ports and 1U size</td> <td>One</td> </tr> </tbody> </table>	S.N.	Description	Qty.	1	Type of Rack (Steel)	Wall Mount	2	Size of Rack	12U / 13U	3	Front Glass Door	One	4	Rear perforated Door	One	5	No of Fan Trays with four fans	One	6	Power Strip with 6 / 8 three pin Indian Sockets	One	7	Fixed Shelves / trays	One	8	CAT 6 Patch / Jack Panel of 24 ports and 1U size	One
S.N.	Description	Qty.																											
1	Type of Rack (Steel)	Wall Mount																											
2	Size of Rack	12U / 13U																											
3	Front Glass Door	One																											
4	Rear perforated Door	One																											
5	No of Fan Trays with four fans	One																											
6	Power Strip with 6 / 8 three pin Indian Sockets	One																											
7	Fixed Shelves / trays	One																											
8	CAT 6 Patch / Jack Panel of 24 ports and 1U size	One																											

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

		9	Horizontal Cable Manager of size 1U	One
		10	Factory Crimped 7 feet CAT 6 patch cord	15
		11	Factory Crimped 3 feet CAT 6 patch cord	15
		<p>(ii). The rack would be installed at a location where there is air conditioning. In case of floor mounting rack, the space above the rack till the ceiling / false ceiling should be kept open for future requirements / expansions and in case of wall mount rack, the space below the rack should be kept open for future requirements / expansions.</p> <p><u>(b). Cabling</u></p> <p>(i). Surface mount Information Outlet (I/O) boxes with connectors affixed to the partition along with face plate one each at each workstation/ cubical/ cabin/ conference room and for printers.</p> <p>(ii). All field cables originating from workstation / cubical/cabin/conference room/printer should be terminated / crimped to the patch / jack panels. Numbering of cables at both ends and on patch/jack panel to be carried out.</p> <p>(iii). All field cables within the bank premises should be laid through PVC conduit along a duct.</p> <p>(iv). All ports on patch panel, I/O and cables should be properly tagged for easy identification. Complete LAN diagram to be provided.</p> <p>(v). All cables and passive components (I/O, patch/jack panel etc for LAN connectivity should be CAT 6 only.</p>		

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-


OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

		(vi). Total Number of Network Points - 15 c). For illustration purpose structured cabling diagram is given in Appendix -ii.
--	--	---

Appendix -ii

Network Cabling Diagram (for illustration purpose only)

1. The diagrams are for illustration purpose only.
2. The size of rack, number of - patch/jack panels, Horizontal cable manager, empty shelves/trays etc. are as per RfP specifications.
3. **Wall Mount Rack**



THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

MODIFICATION NO-15

The following List of reputed Makes (Appendix-1) is modified/updated at Page No 34 and 35

List of Reputed Makes

Sr No	As per tender Document hosted	Revised
Page No. 34 and 35	Chairs -Godrej / Eurotech / Feather Light- Different for various grades of Officers and Visitors False Ceiling- Gypsum Board from India Gypsum, Mineral Fibre tiles ceiling from Armstrong Blinds -Vista Levelor / Mac / Aerolex Paint- ICI /Berger /Asian /Johnson & Nicholson Putty- Shalimar / Berger /Asian / Birla/ JK Texture Paint- Spectrum / Unitile / Heritage Flush Doors- Duro / Alpro / Swastik / Anchor / ISI Mark Door Closer -Dorma/ Haffle / Everite / Hardwin/ Godrej Brass hardware- Sigma / Earl behari/ Godrej Locks -Godrej /Golden /Secure / Vijayan / Dorma Hardware -Sigma / Everite	1. Chairs - Godrej / Eurotech / Feather Light- Different for various grades of Officers and Visitors 2. False Ceiling - Gypsum Board from India Gypsum, Mineral Fibre tiles ceiling from Armstrong 3. Blinds - Vista Levelor / Mac / Aerolex 4. Network Passive components (LAN cabling) – all components should be CAT 6 compatible - D-Link, Finolex, Molex, Krone, Systemax, AMP(Tyco). 5. Network rack – Netrack, Valrack, APW, D-link etc. 6. LAN Cable Telephone cable - Cat 6 AT&T approved, D-Link, Finolex, molex, systemax, AMP(Tyco). 7. Paint- ICI /Berger /Asian /Johnson & Nicholson 8. Putty- Shalimar / Berger /Asian / Birla/ JK 9. Texture Paint- Spectrum / Unitile / Heritage 10. Flush Doors- Duro / Alpro / Swastik / Anchor / ISI Mark 11. Door Closer -Dorma/ Haffle / Everite / Hardwin/ Godrej 12. Brass hardware- Sigma / Earl behari/ Godrej 13. Locks -Godrej /Golden /Secure / Vijayan / Dorma 14. Hardware -Sigma / Everite 15. Aluminium Hardware- ----Do----- 16. Glazed Tiles- Johnson / Somani / Kajaria/ Nitco 17. Laminate- Greenlam / Marino / Century

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

Aluminium Hardware- ----Do-----	18. Ply & Board- Duro /Alpro /Century /Kit / Anchor
Glazed Tiles- Johnson / Somani / Kajaria/ Nitco	19. PVC Flooring- Armstrong / Krishna Vinyle Ltd.
Laminate- Greenlam / Marino / Century	20. Venition Blind Tracks -Vista Levelor / Mac / Aerolex
Ply & Board- Duro /Alpro /Century /Kit / Anchor	21. Glass / Mirror- Modiguard /Ashai /Atul / fish /Saintgobain
PVC Flooring- Armstrong / Krishna Vinyle Ltd.	22. Resin based Adhesie -Fevicol / Vemicol
Venition Blind Tracks -Vista Levelor / Mac / Aerolex	23. Melamine polish- Asian / Berger / ICI
Glass / Mirror- Modiguard /Ashai /Atul / fish /Saintgobain	24. Vitrified tiles -Johnson / Euro / Asian / Bell/RAK
Resin based Adhesie -Fevicol / Vemicol	25. Modular Furniture -BP Ergo / Godrej / Featherlite / PSL
Melamine polish- Asian / Berger / ICI	26. ACs -Voltas, Carrier Aircon, LG, BlueStar, Videocon
Vitrified tiles -Johnson / Euro / Asian / Bell/RAK	27. Modular switches / sockets /plates -Anchor Roma / Crabtree / MK Schneider
Modular Furniture -BP Ergo / Godrej / Featherlite / PSL	28. PVC wire / cable -Finolex / Polycab / RPC / ICI]
ACs -Voltas, Carrier Aircon, LG, BlueStar, Videocon	
Modular switches / sockets /plates - Anchor Roma / Crabtree / MK Schneider	
PVC wire / cable -Finolex / Polycab / RPC / ICI	

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

	LAN Cable Telephone cable - Cat 5/6 AT&T approved, D-Link, Finolex	
--	---	--

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.

CORRIGENDUM / ADDENDUM TO TENDER DOCUMENT-

OFFICE PREMISES VARANASI DATED 10/04/2019

[B]- ADDENDUM - Tender No

The following clauses are inserted in the original tender notice hosted on SIDBI portal/E-Procurement Portal.

Addition No. 1

Page No. 4 / 5 :

a). The following Parameters are added to the 15 parameters already mentioned in Page No 4 & 5.

16	बैंक की आवश्यकतानुसार परिसर में संरचित लैन केबलिंग को पूरा करना / प्रदान करना। Willing to carry out / provide structured LAN cabling in the premises as per the bank's requirement.
17	9 मीटर के वायरलेस एंटीना की स्थापना के लिए छत पर जगह प्रदान करने की इच्छा। Willing to provide space on roof top for installation of Wireless antenna of 9 Meter.

Addition No. 2

The following conditions are added to the format of Technical Bid (TB) at Page No. 24 and may be read as under :-

25	Whether ducts for drawing of cables available from: a) Roof top to the banks premises and b) Outside the premises to the banks premises.	a) हाँ/ नहीं Yes/No b) हाँ/ नहीं Yes/No
26	Whether dedicated earthing with earth to neutral voltage between 01.V to less than 3V will be provided.	हाँ/ नहीं Yes/No
27	Whether electrician assistance will be provided by the owner during the entire lease period for assisting the banks service providers in drawing of cables as and when required, without any additional cost to the bank.	हाँ/ नहीं Yes/No
28	Whether structured LAN cabling will be provided by the Owner as per details given in Annexure – I (LAN cabling)	हाँ/ नहीं Yes/No

THE ABOVE CHANGES ARE TREATED AS PART AND PARCEL OF ORIGINAL TENDER HOSTED ON SIDBI PORTAL DATED 10/04/2019.